

एडवांस केयर प्लेनिंग (अग्रिम देखरेख नियोजन) क्या होती है?

अग्रिम देखरेख नियोजन उस स्थिति में भविष्य की आपकी स्वास्थ्य-देखरेख के बारे में आगे की योजना बनाना है, जब आप अपनी ओर से बात करने के लिए बहुत बीमार हों। यह दूसरों को यह जानने में सहायता करता है कि आप के लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य व्यवसायी आपसे अग्रिम देखरेख योजना बनाने और आपके चिकित्सा उपचार निर्णायक के बारे में पूछ सकते हैं।

और अधिक जानकारी या एडवांस केयर प्लेनिंग में सहायता के लिए

स्टाफ के किसी सदस्य से बात करें या फोन करें

Anne Marie Fabri 9495 3235
Karen Overall 9495 3140



दुभाषिया सेवा
कृपया 131 450 पर फोन करें (निःशुल्क सेवा)।

आप अपनी खुद की भाषा में बात कर सकते/सकती हैं, और एडवांस केयर प्लेनिंग से सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए उन्हें 9495 3235 पर फोन करने के लिए कहें।

नॉदर्न हेल्थ एडवांसड केयर प्लेनिंग प्रोग्राम

टेलीफोन: 9495 3235

ई-मेल: acp@nh.org.au

www.nh.org.au/services/advance-care-planning



Northern Health

'3-चरणों में ACP'


© नॉदर्न हेल्थ 2009



Northern Health

आपके लिए चिकित्सीय निर्णय कौन लेगा?

HINDI



एडवांस केयर प्लेनिंग-
भविष्य की स्वास्थ्य-देखरेख के लिए योजना बनानी

यदि आप बहुत बीमार पड़ जाते/जाती हैं या आप किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाते/जाती हैं और आप अपने इलाज के लिए अपने डॉक्टर के साथ बात नहीं कर सकते/सकती हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा?

आपके लिए चिकित्सीय निर्णय कौन लेगा? और उन्हें यह कैसे पता लगेगा कि आप क्या चाहते/चाहती हैं?

एडवांस

A. किसी अन्य को नियुक्त करना

आप एक कानूनी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते/सकती हैं जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि यदि आप अपने निर्णय लेने के लिए बहुत बीमार हो जाते/जाती हैं तो आप क्या चाहते/चाहती हैं कि आपके लिए चिकित्सीय निर्णय कौन ले।

ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा उपचार निर्णायक के रूप में जाना जाता है।

केयर

C. बातचीत करें

अपनी मान्यताओं, विचारधाराओं और स्वास्थ्य-देखरेख प्राथमिकताओं के बारे में अपने चिकित्सा उपचार निर्णायक, परिवार, मित्रों और डॉक्टरों से बात करें। उन्हें यह बतायें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है।

साथ ही, अपने डॉक्टरों या अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों से यह पता लगाने के लिए बात करें कि आगे क्या हो सकता है।

प्लेनिंग

P. इसे कागज़ी रूप दें

यदि आप पूरी तरह से किसी बात के बारे में महसूस करते/करती हैं, तो आप अपनी स्वास्थ्य-देखरेख प्राथमिकताओं और मान्यताओं या भविष्य में चिकित्सा उपचार के फैसलों का वर्णन करते हुए एडवांस केयर डॉयरेक्टिव (निदेश) में इसे लिख सकते/सकती हैं।

यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप नियुक्त कर सकें तो उस परिस्थिति में भी आप ऐसा करना चाह सकते/सकती हैं। आप इस आलेख की कاپियाँ अपने चिकित्सा उपचार निर्णायक, अस्पताल एवं अन्य लोग जो आपकी देखभाल में शामिल हों दे दें।

एडवांस केयर प्लेनिंग - भविष्य की स्वास्थ्य-देखरेख के लिए योजना बनानी